



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185]
No. 185]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1979/वैशाख 8, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 1979/VAISAKHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

क्रा. अ. 233(अ).—निर्वाचन आयोग ने तारीख 20 अप्रैल, 1979 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (2) में प्रकाशित और उसी तारीख को पंजाब सरकार के राजपत्र में पुनः प्रकाशित अपने उसी तारीख के आदेश द्वारा—

(क) तारीख 13 मई, 1979 (रविवार) को ऐसी तारीख के रूप में जिसकी 13-फरवरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समा-विष्ट फीजलका सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों और नूरुल्लाहा सभा निर्वाचन-क्षेत्र के मतदान केन्द्र सं. 8-खंगाराय हिथर में 7 बजे पूर्वान् और 3 बजे अपराह्न के समय के दौरान पुनः मतदान कराया जाएगा, और

(ख) तारीख 23 अप्रैल, 1979 (सोमवार) को ऐसी तारीख के रूप में जिस तारीख तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डाक मत-पत्र द्वारा मत देने के हकदार सभी मतदाताओं को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा डाक मत-पत्र भेज दिए जाएंगे :

नियत किए थे।

और, उक्त पुनः मतदान को जून, 1979 माह को किसी तारीख तक स्थगित करने के लिए और ऐसे स्थगन के विरुद्ध भी अभ्यावेदन

दिए गए हैं, और निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 1979 को एक बैठक ने ऐसे अभ्यर्थियों और अनंक प्रतिनिधियों के साथ, जो उस बैठक में उपस्थित थे, वहां अभिव्यक्त किए गए अनंक विचारों सहित अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है,

और, आयोग द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 1979 को नियत की गई बैठक के बाद आयोग का निर्णय लम्बित रहने तक आयोग द्वारा दिए गए अन्तिम निर्देशों के कारण डाक-मत-पत्र द्वारा मत देने के हकदार मतदाताओं को भेजे जाने वाले डाक-मत-पत्र पहले नियत की गई तारीख 23 अप्रैल, 1979 को नहीं भेजे जा सके ;

अतः अब, ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30, 56 और 64 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 224 तथा सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त तथा उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी तारीख 20 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना को सभा निम्नलिखित रूप में संशोधित करता है :—

“13 मई, 1979 (रविवार)” और “23 अप्रैल, 1979 (सोमवार)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, क्रमशः “20 मई, 1979 (रविवार)” और “28 अप्रैल, 1979 (शनिवार)” रखे जाएंगे।

[सं. 493/पंजाब-लो. स./79]

वी. नागसूब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1979

S. O. 233(E).—Whereas by its order dated the 20th April, 1979, published in the Gazette of India, extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 20th April, 1979 and republished in the Punjab Government Gazette of the same date, the Commission appointed—

- (a) the 13th May, 1979 (Sunday), as the date on which the repoll shall be taken in all the polling stations in the Fazilka assembly constituency and polling station No. 8-Chhanga Rai Hithar in Guru Har Sahai assembly constituency, comprised in 13-Ferozepur Parliamentary Constituency between 7.00 a.m. and 3.00 p.m.; and
- (b) the 23rd April, 1979 (Monday), as the date by which the postal ballot papers shall be sent by the Returning Officer to all the voters entitled to vote through postal ballot in terms of the order of the High Court of Punjab and Haryana;

And whereas representations have been made both for the postponement of the said repoll to a date in June 1979 and against such postponement, and the said representations were considered by the Commission at a meeting on the 26th April, 1979 with those contesting candidates or their representatives as were present at the said meeting together with their views expressed thereat;

And whereas on account of the interim directions of the Commission, the postal ballot papers to be despatched to the voters entitled to vote through postal ballot could not be sent on the 23rd April, 1979 as originally fixed, pending the decision of the Commission after the meeting fixed for the 26th April, 1979;

Now, therefore, after taking into account the facts and circumstances stated above, the Election Commission in exercise of its powers conferred by article 324 of the Constitution read with Section 30, 56, and 64A of the Representation of the People Act, 1951, Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it to do so, hereby amends its notification dated the 20th April, 1979 as follows:—

For the words, figures, letters and brackets "the 13th May, 1979 (Sunday)" and "the 23rd April, 1979 (Monday)", the words, figures, letters and brackets "20th May, 1979 (Sunday)" and "the 28th April, 1979 (Saturday)" respectively shall be substituted.

[No. 493/PB-HP/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.